

## Bilaspur Crime News: टाइटन और फास्ट्रैक के सात लाख के नकली चश्मे व घड़ियां जब्त

Bilaspur Crime News: कंपनी के अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई के लिए पुलिस को जानकारी दी।

Publish Date: | Wed, 20 Oct 2021 11:55 PM (IST)



**बिलासपुर। Bilaspur Crime News:** शहर के बाजार में टाइटन और फास्ट्रैक के नकली चश्मे और घड़ियां बेचे जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी के अधिकारी ने जांच कर पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में बुधवार की शाम तेलीपारा स्थित दो दुकानों से सात लाख का नकली सामान बरामद किया गया है। इंदौर के सवरिया नगर में रहने वाले मयंक शर्मा(21) ईआइपीआर कंपनी में जांच अधिकारी हैं। उनकी कंपनी टाइटन और फास्ट्रैक की ओर से बाजार में बिक रहे नकली सामान पर नजर रखती है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी कंपनी की ओर से अधिकृत हैं।

मयंक को सूचना मिली थी कि बिलासपुर के तेलीपारा में टाइटन और फास्ट्रैक के नकली चश्मे और घड़ी बेचे जा रहे हैं। इस पर वे तेलीपारा रोड स्थित वृंदावन परिसर के कृष्णा ट्रेडर्स और आरएस ट्रेडर्स पहुंचे। दोनों दुकानों में कंपनी का नकली सामान मिला। इस पर उन्होंने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। बुधवार की शाम कोतवाली पुलिस ने कृष्णा ट्रेडर्स से 270 नकली घड़ी और 21 नकली आइ-प्लस चश्मे जब्त किए हैं। वहीं, आरएस ट्रेडर्स से 142 घड़ियां जब्त की गई हैं। दोनों जगह से जब्त सामान की कीमत सात लाख 70 हजार रुपये हैं। मामले में पुलिस ने दोनों संस्थान के संचालक से पूछताछ कर रही है।

वृंदावन परिसर की दो दुकानों में नकली चश्मे और घड़ी बेचे जाने की शिकायत मिली है। कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। दोनों दुकान के मालिक से इस संबंध में दस्तावेज मंगाए गए हैं। इसकी जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

सैहिल साहू

सीएसपी, कोतवाली

Source: <https://www.naidunia.com/chhattisgarh/bilaspur-bilaspur-crime-news-titan-and-fastracks-fake-glasses-and-watches-worth-seven-lakh-seized-7108106>